



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)

PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8]

दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 9, 2017/माघ 20, 1938

No. 8]

DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 9, 2017/MAGHA 20, 1938

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2017

संदर्भ: वर्ष 2012 में आयोजित विधान सभा के साधारण निर्वाचन में 255—सोरांव (अ०जा०) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री सुरेन्द्र चौधरी पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 10क के अधीन अधिरोपित निरर्हता को हटाने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 के अधीन अपील।

आ. अ. 8 (अ).— यतः, विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2012 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में 255—सोरांव (अ०जा०) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री सुरेन्द्र चौधरी को आयोग के दिनांक 07.12.2015 के आदेश संख्या 76/उ०प्र०—वि०स०/2012 के द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल न करने के कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अधीन निरर्हता घोषित कर दिया गया था; और

यतः, आयोग के दिनांक 07.12.2015 के निरर्हता आदेश प्राप्त कर लेने के पश्चात् श्री अजय कुमार पासी ने आयोग के उपरोक्त आदेश द्वारा उन पर अधिरोपित निरर्हता हटाने के लिए, सुसंगत दस्तावेजों सहित, उक्त अधिनियम की धारा 11 के अधीन दिनांक 13.01.2017 को अपने अभ्यावेदन के द्वारा एक अपील प्रस्तुत की थी; और

यतः, उन्हें इस संदर्भ में उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिया गया; और

यतः, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिनांक 06.02.2017 को आयोग के सचिवालय में श्री सुरेन्द्र चौधरी को व्यक्तिगत रूप से सुना गया; और

यतः, श्री सुरेन्द्र चौधरी को सुनने के पश्चात् अपीलीय प्राधिकारी का यह समाधान हो गया है कि उनके पास विधि द्वारा अपेक्षित रीति तथा समय—सीमा के अंदर लेखे को प्रस्तुत करने में असफल रहने का पर्याप्त कारण था; और इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी नोट किया कि उपर्युक्त अभ्यर्थी ने अब अपना निर्वाचन लेखा अपेक्षित रीति से दाखिल कर दिया है; और

यतः, अपीलीय प्राधिकारी ने दिनांक 07.12.2015 के उपर्युक्त आदेश द्वारा उन पर अधिरोपित निरर्हता को प्रतिसंहारित करने का निर्णय लिया है और यह भी निर्णय लिया है कि इसे 06.02.2017 से प्रतिसंहारित किया जाए; और

अब, इसलिए श्री सुरेन्द्र चौधरी, जो एक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, पर आयोग के दिनांक 07.12.2015 के आदेश संख्या 76/उ0प्र0-वि0स0/2012 द्वारा अधिरोपित निरर्हता को दिनांक 06.02.2017 से प्रतिसंहारित किया जाता है ।

[सं. 76/उ.प्र.-वि.स./255/2012]

आदेश से,  
अनुज जयपुरियार ,सचिव

स्थान: नई दिल्ली  
दिनांक: 6 फरवरी, 2017

### ELECTION COMMISSION OF INDIA

#### ORDER

New Delhi, the 6th February, 2017

**In re: Appeal under Section 11 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) for removal of disqualification imposed under Section 10A of the said Act on Shri Surendra Chaudhary, a contesting candidate from 255-Soraon (SC) Assembly Constituency in the State of Uttar Pradesh at the General Election to Legislative Assembly held in 2012.**

**O.N. 8 (E).**— Whereas, Shri Surendra Chaudhary, a contesting candidate from 255-Soraon (SC) Assembly Constituency in the State of Uttar Pradesh during Legislative Assembly General Election, 2012, had been disqualified under Section 10A of the Representation of People Act, 1951, for not filing account of election expenses, vide Commission's Order No. 76/UP-LA/2012, dated 07.12.2015; and

Whereas, after receipt of the Commission's disqualification order dated 07.12.2015, Shri Surendra Chaudhary, has presented, an appeal dated 13.01.2017, under Section 11 of the aforesaid Act, along with relevant documents, for removal of disqualification imposed on him vide Commission's aforesaid order; and

Whereas, he has been given a personal hearing in this regard; and

Whereas, the Appellate Authority has heard Shri Surendra Chaudhary, in person on 06.02.2017 in the Commission's Secretariat; and

Whereas, on hearing Shri Surendra Chaudhary, the Appellate Authority is satisfied that he has good reasons for his failure to lodge any account within the time and in the manner prescribed by law and has further noted that the aforesaid candidate has now filed his election account in the manner prescribed; and

Whereas, the Appellate Authority has decided to revoke disqualification imposed upon him vide aforesaid Order dated 07.12.2015 and has further decided to revoke it with effect from 06.02.2017; and

Now, therefore, the disqualification imposed upon Shri Surendra Chaudhary, a contesting candidate vide Commission's Order 76/UP-LA/2012, dated 07.12.2015 is revoked with effect from 06.02.2017

[No. 76/UP-LA/255/2012]

By Order,  
ANUJ JAIPURIAR, Secy.